RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

CIN:L67120DL1981PLC011741

Registered Office: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi- 110024 **E-mail:**ritaholdingsltd@gmail.com; **Website:**www.ritafinance.in; Tel.: 011-46772202

May 29,2024

To,

Department of Corporate Relations	Metropolitan Stock Exchange of India Limited
BSE Limited	205(A), 2nd floor, Piramal Agastya Corporate Park,
P. J. Towers,	Kamani Junction, LBS Road, Kurla (West), Mumbai –
Dalal Street, Fort	400070
Mumbai-400 001	
Security Code: 543256	Symbol: RFLL

Dear Sir,

Sub.: Newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on Monday, 27th day of May, 2024 for the quarter and year ended March 31, 2024

ISIN: INE018S01016 SYM: RFLL

With reference to the regulation 47 and other applicable regulations, if any of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of audited financial results approved in the board meeting held on Monday, 27th day of May, 2024 for the quarter and year ended March 31, 2024 published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. **"Financial Express"** and Hindi newspaper i.e. **"Jansatta"** as on Wednesday, May 29, 2024.

Please find the enclosed copy of the same.

Thanking You, Yours truly

For Rita Finance and Leasing Limited

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

Encl: Copy of Newspaper Advertisement

Three Months Ended Year Ended 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 B1.03.2024B1.03.2023

(Audited) (Unaudited) (Audited) (Audited)



Kerala Co-operative Milk Marketing Federation Ltd. Milma Bhavan, Pattom P.O. Trivandrum-695004 Ph: 0471 2786415 to 416 E-mail: purchase@milma.com E-TENDER for SUPPLY OF MOLASSES

Bids are invited from Bidders for supply of MOLASSES for Cattle Feed Plant Malampuzha. e-tender cum auction is hosted in www.etenders.kerala.gov.in, Last date for submission of bid is 10.06:2024. For more details:www.milma.com or www.etenders.kerala.gov.in MANAGING DIRECTOR

RITA FINANCE AND LEASING LIMITED CIN: L67120DL1981PLC011741

Regd. Off.: D-328, Basement Floor, Defence Colony, New Delhi-110024 E-mail: ritaholdingsltd@gmail.com | Website: www.ritaholdings.in Tel: 011-46772202

Extracts of the Standalone Audited Financial Results

(? in Lakh						
SI No.	Particulars	Quarter Ended	Year to Date Figures Ended	Corresponding Months Ended i the previous year		
	WILLIAM STATES	31/03/2024	31/03/2024	31/03/2023		
		(Audited)	(Audited)	(Audited)		
1.	Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before Tax,	2.30	120.98	16,41		
3.	Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before tax	(17.47)	59.02	11.46		
4.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax	(17.47)	59.02	11.46		
5.	(after Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after	(17.47)	39.85	8.58		
	tax) & other Comprehensive Income (after tax)]	(17.47)	39.85	8.58		
6.	Equity Share Capital	1000.00	1000.00	1000.00		
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	4.		-		
8.	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -					

1. Basic

2. Diluted

The above is an extract of the detailed format of Audited Quarterly Financial Results filed with the Stoc Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Audited Quarterly Financial Results are available on the Website of the Company i.e. (www.ritafinance.in) and website of the stock Exchange(s) The above result have been reviewed by the audit committee and approved by the Board at their

meeting held on 27th May, 2024. The Financial result have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS as prescribed under section 133 of the Companies Act ,2013 read with Ind -as rules (As amended)

For and on behalf of the Board of Directors of RITA FINANCE AND LEASING LIMITED

0.40

0.40

(0.17)

0.08

0.08

Date: 27.05.2024 Place: New Delhi

Pawan Kumar Mittal (Director DIN: 00749265



NAYARA ENERGY LIMITED

Registered Office: Khambhalia Post, Post Box No. 24, Dist, Devbhumi Dwarka - 361 305, Gujarat

Corporate Identity Number: U11100GJ1989PLC032116 Phone: +91 2833 661444. Fax: +91 2833 662929 Email: investors@nayaraenergy.com • Website: www.nayaraenergy.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

Notice is hereby given that, pursuant to the provisions of Section 110 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020, General Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021, General Circular No. 20/2021 dated December 8, 2021 General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars"), approval of the Members of Nayara Energy Limited ("the Company") is sought for the resolutions proposed in the Postal Ballot Notice dated May 23, 2024, through postal ballot process by way of remote e-voting process ("e-voting").

In compliance with the MCA Circulars, Notice of Postal Ballot along with the explanatory statement has been dispatched by providing a weblink only by electronic mode (e-mail) on Tuesday, May 28, 2024 to all the Members of the Company, whose names appear in the Register of Members or records of Depositories as on the Cut-off Date of May 24 2024 and whose e-mail lds are registered with the Depository Participant(s), Link Intime India Private Limited, Registrar & Transfer Agents of the Company ("RTA"), as the case may be. The Notice of Postal Ballot is also available on the Company's website at www.nayaraenergy.com and on the website of National Securities Depository Limited ("NSDL") at www.evoting.nsdl.com.

In compliance with the MCA Circulars, kindly note that the hard copy of the Postal Ballot Notice along with the Postal Ballot Form and self-addressed postage prepaid business reply envelopes are not being sent to the Members.

Manner of casting vote through e-voting - Members can cast their vote on business to be transacted through Postal Ballot only through the e-voting process. The Company has engaged the services of National Securities Depository Limited for providing e-voting facility to all its Members. The e-voting facility will be available at the link https://www.evoting.nsdl.com. The e-voting facility will commence from 8.00 a.m. (IST) on Wednesday, May 29, 2024 and end at 5.00 p.m. (IST) on Thursday, June 27, 2024. The e-voting module shall be disabled by NSDL after 5:00 p.m. on Thursday, June 27, 2024 and members will not be allowed to vote beyond the said date and time. Members of the Company holding shares in dematerialised or physical mode and those who have not registered their e-mail address, can cast their vote on the resolutions by following the instructions for e-voting as provided in the notes to the Postal Ballot Notice. Once the vote on a resolution is cast by the member, he will not be allowed to change it subsequently.

The cut-off date for the purpose of e-voting is Friday, May 24, 2024 Members holding shares either in physical form or in dematerialized form and whose name is recorded in the Register of Members or the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date only may cast their vote on the Business set out in the Postal Ballot Notice through electronic voting system of NSDL. Members are requested to carefully read the Postal Ballot Notice and refer the notes section for detailed instructions on e-voting including accessing their e-voting login ID and Password. In case of any difficulty in accessing the login ID and/or password, the Shareholders may send a request to NSDL at evoting@nsdl.com or to the RTA by writing at rnt.helpdesk@linkintime.co.in.

Manner of registering Email IDs - The members of the Company holding

Equity Shares in physical form and who have not registered their e-mail addresses may get their email IDs registered by sending scanned copy of a request on plain paper signed by the shareholder (including joint holders, if any) to the RTA of the Company at rnt.helpdesk@linkintime.co.in. mentioning their Folio No., Name of shareholder (including joint holders, it any), Email ID to be registered and Mobile No. (Optional). The request for registration of email ID should be accompanied by (a) scanned copy of the share certificate (front and back); (b) self-attested scanned copy of PAN card and (c) self-attested scanned copy of any one of Aadhar Card passport / driving license / electricity bill (not older than 3 months). The members holding shares in demat form and who have not registered their email IDs are requested to contact their respective Depository Participant and follow the procedure prescribed by them.

Results: The results of the e-voting on the Postal Ballot shall be declared by the Executive Chairman or the person authorised by him after receipt of the scrutinizer's report on Friday, June 28, 2024, on or before 5:00 p.m. The results will be displayed on the notice board at the Registered and Corporate Offices of the Company. The result of the e-voting along with the report of scrutiniser will also be placed on the website of the Company viz. www.nayaraenergy.com and on the website of NSDL viz. https://www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the Downloads section of https://www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 022-48867000 or contact Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at NSDL by sending a request email at evoting@nsdl.co.in or write to them at Trade World, A wing, 4th & 5th Floors, Kamala Mills Compound, Lower Parel, Mumbai - 400 013. Members can also contact Mr. Pradeep Mokale, Assistant Vice President at RTA at the telephone numbers 022 - 49186000 or send email to the RTA at rnt.helpdesk@linkintime.co.in or write to them at Link Intime India Private Limited, Unit - Nayara Energy Limited, C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli (W), Mumbai – 400 083.

A person who is not a Member as on the cut-off date of May 24, 2024 should treat this Notice for information purpose only.

For Nayara Energy Limited Date: May 28, 2024 Mayank Bhargava Place: Mumbai Company Secretary

metsl

Maestros Electronics & Telecommunications Systems Limited Registered Office: Plot No. EL/66, TTC Industrial Area, Electronic Zone, Mahape, Thane, Navi Mumbai, Maharashtra, India, 400701 Phone No.: 022-2761 1193 Website: www.metsl.in, www.maestroselectronics.com Email Id: cs@metsl.in.

> CIN: L74900MH2010PLC200254 NOTICE OF POSTAL BALLOT & REMOTE E-VOTING

Notice of Postal Ballot is hereby given to the Shareholders of Maestros Electronics & Telecommunications Systems Limited ("the Company"), pursuant to and in compliance with the provisions of Section 106, Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with rule 20 and rule 22 of the Companies (Management and Administration), Rules, 2014 [including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force ("Rules"), Secretarial Standards-! ("SS-2"), read along with the General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020, General Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020, General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021; General Circular No. 19/2021 dated December 08, 2021, General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022, General Circular No. 11/2022 dated December 28, 2022 and General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023 and all other applicable circulars, if any, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars"), Regulation 44 of the Securities Exchange and Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("SEBI Listing Regulations"), and pursuant to other applicable laws and regulations, the special resolutions appended below are proposed for approval of the Shareholders of Maestros Electronics & Telecommunications Systems Limited ("the Company") through postal ballot by remote e-voting process ("Remote E-Voting"). This Notice is being sent through email to all the Shareholders who have registered their email addresses with the Company, RTA or Depository. Resolutions

To consider and approval for appointment of Mrs. Swati Manis Thanawala (DIN: 10538734) as Independent (Non-Executive) Director of the Company

The Cut-off date for the purpose of ascertaining the eligibility of members to cast their vote through remote e-voting facility is Friday, May 24, 2024. The Company has engaged the services of National

Securities Depository Limited (NSDL) for providing e-voting facility to shareholders.

The members whose names appear in the register of members/register of beneficial owners as on the Cut-off date shall only be entitled to avail the remote e-voting facility. A person who is not a member as on the Cut-off date should treat this Notice for information purposes only.

In compliance of statutory provisions, the Company has completed the dispatch of Postal Ballo Notice only through e-mail, on Tuesday, May 28, 2024, to those shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company/Depositories and whose names appear in the register of members/ register of beneficial owners as on the Cut-off date. Further, a physical copy of the Notice along with an explanatory statement and Postal ballot form has not been sent to the members for this Postal ballot. Hence, the members are required to communicate their assent/dissent only through a remote

The remote e-voting period shall commence on Wednesday, May 29, 2024 (09:00 AM) (IST) and will end on Thursday, June 27, 2024 (5:00 PM) (IST). The remote e-voting module will be disabled thereafter by NSDL. Once the vote on a resolution is cast by a Member, they shall not be allowed to change it subsequently to cast the vote again. The detailed procedure/instructions for e-voting are specified in the Notes to the Postal Ballot Notice.

The Board of Directors of the Company has appointed M/s MMJB & Associates LLP (Peer Review No. 2826/2022), as a Scrutinizer for conducting this Postal Ballot process.

The aforesaid Notice along with explanatory statement is available on the website of the Company i.e., www.metsl.in, www.maestroselectronics.com website of e-voting agency at www.evoting.nsdl.com and website of Bombay Stock Exchange at www.bseindia.com Those Members, whose e-mail IDs are not registered, are requested to refer to the procedure mentioned in the Notes to Postal Ballot Notice, available on the above websites, to cast their votes electronically.

Members holding shares in electronic form are requested to register/update their e-mail IDs with the respective depository participants and in case of shares held in physical form, by sending a request through e-mail to the Registrar and Share Transfer Agent (R&TA) of the Company i.e. Link Intime India Private Limited at e-mail ID: mumbai@linkintime.co.in with a copy marked to cs@metsl.in.

In case of any queries/grievances, members may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting user manual available at the download section of www.evoting.nsdl.com or refer to the instructions as mentioned in the Postal Ballot Notice or call on toll free nos.: 1800-1020-990 or 1800-22-44-30 or send a request to Mr. Sanjeev Yadav, Assistant Manager, NSDL at evoting@nsdl.co.in .Members may also write to the Company at the e-mail ID: cs@metsl.in.

statutory timelines by placing the same on the website of the Company i.e. www.metsl.in www.maestroselectronics.com and e-voting agency i.e. www.evoting.nsdl.com. Further the results shall also be communicated to the Stock Exchange simultaneously.

The results of the Postal Ballot, along with Scrutinizer's Report, will be declared within the

For Maestros Electronics & Telecommunications Systems Limited

Balkrishna Kamalakar Tendulkar DIN: 02448116 Managing Director Address: Plot No. EL/66, TTC Industrial Area,

Date: 29-05-2024 Electronic Zone, Mahape Navi Mumbai Place: Mumbai Thane Maharashtra 400701 India

MBL Infrastructure Ltd.

(Formerly known as MBL Infrastructures Ltd.)

CIN: L27109DL1995PLC338407

Corp. & Regd. Office: Baani Corporate One Tower, Suite No. 308, 3rd Floor.

Plot No. 5, District Commercial Centre, Jasola, New Delhi - 110 025

Tel: +91- 011 44792982, Fax: +91-11-4859 3320,

E-mail: cs@mblinfra.com, Website: www.mblinfra.com

NOTICE OF POSTAL BALLOT

NOTICE is hereby given pursuant to the provisions of Sections 108, 110

and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, (the

'Act') read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014, ('the Rules'), Regulation 44 of the Securities

and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure

Requirements) Regulations, 2015 (the 'Listing Regulations'), Secretarial

Standard on General Meetings issued by the Institute of Company

Secretaries of India, each as amended, General Circular No. 09/2023

dated 25th September, 2023 issued by the Ministry of Corporate Affairs

for holding general meetings / conducting the postal ballot process

through e-voting (the 'MCA Circular'), and any other applicable law, rules

and regulations (including any statutory modification(s) or re-enactment(s)

thereof, for the time being in force), the following Special Resolutions

are proposed for consideration by the Members of the Company for

approval by means of Postal Ballot by voting through electronic means

In terms of the requirements specified in the MCA Circular, the Company

has completed the dispatch of the Postal Ballot Notice along with the

explanatory statement through electronic mode on 27th May, 2024 only

to those Members whose names appear in the Register of Members of

the Company or in the Register of Beneficial Owners maintained by the

Depositories as on 24th May 2024 ('cut-off date') and whose e-mail

addresses are registered with the Company / Depositories. Accordingly,

a physical copy of the Notice along with Postal Ballot Form and prepaid

business reply envelope, have not been sent to the Members for this

Members whose names appear in the Register of Members / List of

Beneficial Owners maintained by the Company / Depositories as on 24th

May 2024 (cut-off date) are entitled to vote on the Resolutions as set

forth in the Postal Ballot Notice. The voting rights of the members will

be in proportion to their shares to the total paid up capital of the Company

as on cut-off date i.e. 24th May 2024. A person who is not a Member

as on the cut-off date should treat this Notice for information purpose

Postal Ballot Notice will also be available on the website of the Company

at www.mblinfra.com, website of Stock Exchanges i.e. BSE Limited and

National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

www.nseindia.com respectively and on the website of NSDL i.e.

Pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rule

therein and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure

Requirements) Regulations 2015 (as amended), and MCA Circulars, the

Company has provided e-voting facility to its members. For this purpose,

the Company has entered into an agreement with National Securities

Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means,

as the authorized agency. Members are requested to provide their assent

The period for remote e-voting period commences from 09:00 am (IST)

on 30th May, 2024 and ends at 05:00 pm (IST) on 28th June, 2024

The Board of Directors of the Company on 27th May, 2024 appointed

Ms Anjali Yadav, Practicing Company Secretary, (Membership No. FCS

6628) as the Scrutinizer to scrutinize the Remote e-Voting process in

The result of the Postal Ballot will be announced on 28th June, 2024 and

will be available forthwith on the website of the Company

www.mblinfra.com and on the website of NSDL i.e.

www.evoting.nsdl.co.in. Such results will also be displayed on the

Notice Board at the Registered Office as well as the Corporate Office

of the Company and shall be forwarded to the National Stock Exchange

of India Limited and BSE Limited at www.nseindia.com and

In case of any query / grievance relating to e-voting, Members may

write to Mr. Anubhay Maheshwari, Company Secretary, MBL Infrastructure

Ltd., Baani Corporate One, Suite No. 308, 3rd Floor, Plot No. 5, Commercial

Centre, Jasola, New Delhi- 110025 or contact at 011-44792982 or through

email cs@mblinfra.com. Further for e-voting queries, shareholders may

refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for them under the

"Downloads" section of https://www.evoting.nsdl.com or call on

022-4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager,

NSDL and/or Mr. Amit Vishal, Deputy Vice President, NSDL at

thereafter the remote e-voting will be blocked by NSDL.

Appointment of Mr. Dinesh Kumar Saini (DIN: 06425474) as

Appointment of Ms. Megha Singh (DIN: 10565795) as an

Description of Special Resolution

an Independent Director of the Company

Independent Director of the Company

("remote e-voting")

www.evoting.nsdl.co.in.

or dissent through e-voting only.

a fair and transparent manner.

www.bseindia.com respectively.

e-voting@nsdl.com.

Place: New Delhi

Date: 28.05.2024

SI. No.

eMudhra Limited

(e) emudhra

CIN: L72900KA2008PLC060368 Registered Office: eMudhra Digital Campus, No. 12-P1-A & 12-P1-B Bangalore IT Park Industrial Area, B K Palaya, North, Jala Hobli Bengaluru - 562 149, Karnataka, India, **Telephone**: 080 - 4848 4001 Website: www.emudhra.com Email: companysecretary@emudhra.com

NOTICE OF 16TH ANNUAL GENERAL MEETING

The Sixteen Annual General Meeting (AGM) of the Members of eMudhra Limited, will be held on Thursday, June 27, 2024 at 11:00 A.M. IST. through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) without the physical presence of the members at a common venue in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 02/2022 dated May 05, 2022 and General Circular 11/2022 dated December 28, 2022 read with No. 14/2020, No. 17/2020, No. 20/2020, No. 02/2021, No. 19/2021 and No. 21/2021 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) and Circular dated January 15, 2021 read with Circular dated May 12, 2020, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (Collectively referred to as "circulars") to transact the business set out in the Notice calling the AGM.

In compliance with the relevant circulars, electronic copies of the Notice of AGM and the Annual Report for the financial year 2023-24 comprising Financial Statements, Board's Report, Auditor's Reports and other documents required to be attached therewith will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or the Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at www.emudhra.com and also on the websites of the Stock Exchanges i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The Notice of AGM will also be available on the website of Link Intime India Private Limited ("LIPL") i.e., https://instavote.linkintime.co.in/.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and the MCA and SEBI Circulars, the Company is holding its Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing ('VC')/Other Audio-Visual Means ('OAVM'). For the said purpose the Company has engaged the service of M/s. Link Intime India Private Limited for conducting AGM through VC/OAVM. Further, M/s. Link Intime India Private Limited has also been engaged for facilitating e-voting to enable the members to cast their votes electronically using remote e-voting system as well as e-voting during the AGM. The information and instructions for Members attending the AGM through VC/OAVM are explained in Notes to the Notice of AGM. Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of ascertaining the quorum under Section 103 of the Act.

A person whose name is recorded in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories as on the cut-off date i.e., Thursday, June 20, 2024, shall only be entitled to avail the facility of remote e-voting, participation in the AGM through VC/OAVM or e-voting at the AGM.

The remote e-voting facility will be available during the following voting period: Commencement of remote e-voting: 9:00 a.m. on Monday, June 24, 2024

End of remote e-voting : 5.00 p.m. on Wednesday, June 26, 2024 The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be forthwith disabled by M/s. Link Intime India Private Limited upon expiry of the aforesaid period.

The facility for electronic voting system, shall also be made available at the AGM. The Members attending the AGM, who have not casted their votes through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be able to exercise their voting rights at the AGM. The Members who have already casted their votes through remote evoting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their votes again at the

To enable participation in the remote e-voting process by those shareholders, to whom the Notice of AGM could not be dispatched, the Company has made appropriate arrangements with its Registrar & Transfer Agent for registration of email addresses in terms of the relevant circulars. Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their relevant depositories through their depository participants, shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish details to the company's Registrar & Transfer Agent, M/s. Link Intime India Private Limited. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Shareholders and Instavote e-voting manual for Shareholders available at Instavote-Linkintime or write an e-mail to enotices@linkintime.co.in or call on 022-49186000.

Date: May 29,2024 Place: Bengaluru

> By the Order of the Board of Directors of eMudhra Limited Sd/-V Srinivasan

Executive Chairman (DIN: 00640646)

GREENPANEL NOTICE OF

THE SEVENTH ANNUAL GENERAL MEETING

Notice is hereby given that pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, along with Rules made thereunder, read with circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020, January 2021, December 08, 2021, December 28, 2022 and September 25, 2023 and the circular issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") dated October 7, 2023 (collectively referred to as "Circulars"), the 7th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Greenpanel Industries Limited will be held on Tuesday, June 25, 2024, at 3:00 P.M. (IST) through video conferencing / other audio visual means without any physical presence of Member at a common venue. The Registered Office of the Company will be deemed as the venue for the 7th AGM, and the details regarding the process for participation in the AGM has been provided in the Notice of the AGM.

In accordance with these Circulars, provisions of the Act and Listing Regulations, the Annual Report and Notice of the AGM shall be sent on or before June 03, 2024, by email to the members who have registered their email ID with the Company/Depositories to receive communications via email. The Annual Report will also be accessible on the Company's website at https://www.greenpanel.com/annual-report/ and on the stock exchanges websites at www.bseindia.com and www.nseindia.com. Notice of the AGM is also disseminated on the website of the Registrar and Transfer Agents; Link Intime India Private Limited ("RTA"), (agency for providing the remote e-voting facility and e-voting facility during the AGM) at https://instavote.linkintime.co.in.

The remote e-voting as well as e-voting at the AGM on the proposals contained in the Notice of the AGM will be conducted on the e-voting system provided by the Company. The details of the e-voting system and process of e-voting have been specified in the Notice of the AGM. Members holding shares in physical form or who have not registered their email ID can access the details of the e-voting system and process as mentioned in the Notice of the AGM and vote on the e-voting system after obtaining the credentials for the purpose of e-voting by writing to enotices@linkintime.co.in. The Credentials will be provided to the members after verification of details.

Members who have not registered their email address with the Company can get the same registerd with the Depositories with whom they maintain their demat account or with the RTA, as per details mentioend in the notice of the AGM.

Members holding shares in the electronic form are advised to keep their bank details updated with the respective Depostories, namely NSDL and CDSL. Members holding shares in certificate form are requested to update their bank details with the Company's RTA.

> For Greenpanel Industries Limited Lawkush Prasad Company Secretary and VP - Legal

MDF | Pre-Laminated MDF | Wooden Flooring | Plywood

GREENPANEL INDUSTRIES LIMITED

Registered Office: 'Thapar House', 2nd Floor, 163 S. P. Mukheriee Road, Kolkata - 700026

Corporate Office: DLF Downtown, Block 3. 1st Floor, DLF Phase 3, Sector 25A, Gurugram - 122002

CIN: L20100WB2017PLC265977 | Phone: +91 124 4784600 Website: www.greenpanel.com

E-mail: investor.relations@greenpanel.com

INBREW BEVERAGES PRIVATE LIMITED CIN: U99999DL1972PTC318242

Regd. Office: 406 Kusal Bazar 32-33 Nehru Place New Delhi, 110019, South Delhi Website: www.inbrew.com, Ph.: 0124 4242597, E-Mail: info@inbrew.com EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2024 (₹ in millions, except per share data)

		Refer Note 3	Activities (Control	Refer Note 3	N. SECTION P.	III WARREN
	Income Revenue from operations	23,113,99			101,866.34	
2	Loss before tax	(195,30)	(203.98)	The state of the s	(568.29)	(532.94)
3	Net loss for the period/year	(195.30)	(203.98)	(130.80)	(568.29)	(532.94)
	Total other comprehensive income (net of tax)	0,78	0.29	(5.63)	1,65	(4.40)
	Total comprehensive income for the period/year	(194.51)	(203.69)	(136.43)	(566.64)	(537.34)
	Paid-up equity share capital (face value of ₹ 10 each)	53,38	53.38	53.38	53.38	53,38
	Reserve (excluding other equity & Revaluation Reserve)	(4,440,70)	(4,248.19)	(3,874.05)	(4,440.70)	(3,874.05)
8	Security Premium Account	5,314.59	5,314.59	5,314.59	5,314.59	5,314.59
9	Net worth	2,533.44	2,696.81	2,759.63	2,533.44	2,759.63
10	Paid-up Debt capital/ Outstanding Debt	7,528,65	7,795.90	7,987.77	7,528.65	7,987.77
11	Outstanding Redeemable Preference Shares		ja	(0.040,0.20) (E)	-	1100001111
	Debt Equity Ratio	2.97	2.89	2.89	2.97	2.89
	Earnings per share (face value of ₹ 10 each) (not annualized) (i) Basic (ii) Diluted	-21,88 -21,88			-60.17 -60.17	
14	Capital Redemption Reserve	00.000.000	1			
15	Debenture Redemption Reserve	I	- 3	- 14		5,5-4
16	Debt Service Coverage Ratio	0.22	0.22	0.60	0.68	0.68
17	Interest Service Coverage Ratio	0.35	0.38	0.20	0.53	-0.01

The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for quarter and year ended 31 March 24 filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on stock exchange website www.bseindia.com and website of the company website The above results have been reviewed by the audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 27th May 2024.

For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange and can be accessed on the

The impact on net profit/ loss, total comprehensive income or any other relevant financial items(s) due to change(s) in accounting policies shall be disclosed by means of a footnote. For and on behalf of Board of Directors of Inbrew Beverages Private Limited

Date: 27.05.2024 Place: Gurugram

Particulars

St. Particulars

Rajnikant Sabnavis

UNITED CREDIT LIMITED CIN: L65993WB1970PLC027781

Regd. Office: 27B Camac Street (8th Floor), Kolkata - 700016 Ph.No. (033) 2287-9359/9360, Fax No. (033) 2287-2047

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024 ₹ in Lakhs (Except EPS)

Quarter

ended

ended

31/03/2024 31/03/2024 31/03/2023

Quarter

ended

Email: unitedcreditttd@gmail.com; Website: www.unitedcredittd.com

		Audited	Audited	Audited
1	Total income from operations	95.90	339.56	74.88
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	50.68	207.68	24.34
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	50.68	207.68	24.34
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	41.67	163.56	16.95
5	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	42.34	164.23	15.67
6	Equity Share Capital	549.30	549.30	549.30
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year		2,349.29	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
	(i) Basic	0.78	3.07	0.32
	(ii) Diluted	0.78	3.07	0.32

NOTE:

 i)The above is an extract of the detailed format of Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31.03.2024 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) regulations 2015.

 ii) The full format of the Audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges at www.bseindia.com, www.cse-india.com and also on the Company's website at www.unitedcreditItd.com.

> BY ORDER OF THE BOARD A K DABRIWALA Chairman & Managing Director DIN: 00024498

Maria Santa

Place: Kolkata

Dated: 28th May, 2024

PNB FINANCE AND INDUSTRIES LIMITED Corporate Identity Number: L65929DL1947PLC001240

Regd.Office: Ist Floor, Express Building, 9-10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi - 110 002 Phone: 7303495375, E-Mail- pnbfinanceindustries@gmail.com. Website - ww.pnbfinanceandindustries.com

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year ended 31" March, 2024 (Rupees in Lakhs except per share data) Quarter Ended Year ended Quarter Ended Year ended

No.	Particulars	March 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31,2023
-	70	Audited	Audited	Audited	Audited
1	Total Income from Operations	230.90	1,158.25	154,67	1,126.96
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	190.81	864.25	20.68	793.20
3	Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	190.81	864.25	20.68	301.42
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	159.51	721.68	19.67	179.39
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising Profit/[Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(6,420.18)	(2,651.99)	(555.11)	21,815.33
6	Equity Share Capital (Face value Rs.10 per share)	320.00	320.00	320.00	320.00
7	Other Equity (at the end of the year)				
8	Earnings per share of Rs 10 each				
1000	1. Basic (In Rs.)	4.98	22.55	0.62	5.61
	2. Diluted (In Rs.)	4.98	22.55	0.62	5.61

New Delhi

 The above Audited financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 28, 2024

2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Financial Results of the Company are available on the website of the Company and has also been sent to The Calcutta Stock Exchange Limited on May 28, 2024.

Key number of the Audited Standalone Financial Results for the guarter and and year ended March 31, 2024 are given below: (Rupees in Lakhs except per share data)

	Quarter Ended	Year ended	Quarter Ended	Year ended
Particulars	March 31, 2024	March 31, 2024	March 31, 2023	March 31,2023
	Audited	Audited	Audited	Audited
Total income from operations	111.62	939.16	145.70	1,065.60
Net Profit*(Loss) for the period before tax	72.03	649.01	12.98	716.43
Net Profit/(Loss) for the period after tax	61.15	542.26	12.64	603.13
Total Comprehensive Income for the period	-4,457.79	-888.70	-415.66	12,553.19


4 The figures of the corresponding quarter have been regrouped/reclassified, wherever necessary to confirm to current quarter classification/presentation. By Order of the Board of Directors

Place: New Delhi Date: May 28, 2024

Director & Company Secretary DIN: 03120958/ Membership No: A18585

for PNB Finance and Industries Limited

Shweta Saxena



By Order of the Board

Anubhav Maheshwari

Company Secretary

For MBL Infrastructure Ltd.

Date: May 28, 2024

Place: Gurugram













केनरा बैक 🛆 Canara Bank शाखाः 42 कि.मी माइलस्टोन, सीकरी, बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद, हरियाणा-121004

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 8.11.2023 जारी कर ऋणधारक श्री हरपाल तथा श्री कुलदीप को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि रू. 11,55,845.40/-(रू. ग्यारह लाख पचपन हजार आठ सौ पैंतालिस पैसे चालिस मात्र) वापस लौटाने का

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सुचित किया जाता है कि आज 23 मई, 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 8.11.2023 को 11.55.845.40/- (रू. ग्यारह लाख पचपन हजार आठ सौ पैतालिस पैसे चालिस मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

मकान सं. 3021/1, एसआर नं. 9091-11, आबादी मोहल्ला, खतवार दरवाजा, कृष्णा कॉलोनी, सोहना रोड, पलवल, तहसील पलवल का सभी भाग तथा हिस्सा। **चौहदी: उत्तर:** श्री जयराम की सम्पत्ति-9.14 फीट, **दक्षिण** : 9.14 फीट रास्ता, **पूर्व** : श्री मुंशी राम का मकान - 9.14 फीट, पश्चिम: श्री पद्म सिंह का मकान - 9.14 फीट

तिथि : 29.05.2024 स्थान : फरीदाबाद प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

सीआईएन संख्याः U45400DL2008PLC183645 पंजीकृत कार्यालयः रॉयल पैलेस कॉम्प्लेक्स, पहली मंजिल, जी –55, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली—110092

दिवाला और दिवालियापन संहिता. 2016 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेंड (परिसमापन में) की निम्नलिखित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए

: 03 जुलाई 2024 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 02.00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साध)

संपत्ति का विवरण	आरक्षित	ईएमडी	बोली वृद्धिशील
	मृत्य	राज़ि	राशि
शॉप नंबर —315—316, तीसरी मंजिल 'नेशनल कॉर्पोरेट पार्क' वार्ड नंबर 15, स्वामी आत्मानंद वार्ड, रायपुर में स्थित कार्यालय, सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम पर कुल सुपर बिल्ट—अप एरिया 2318 वर्ग फीट	रु. 144.00 लाख (लागू करऔर प्रभार अतिरिक्त)	হ. 14.40 লা ख	रु. 2.00 लाख या उसके गुणक

। ईएमडी (वापसी योग्य) डिमांड ड्राफ्ट / पे ऑर्डर / एनईएफटी / आरटीजीएस बैंक हस्तांतरण के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

्बोलीदाताओं को कार्यालय / संपत्ति पर जाकर संतुष्ट करने की आवश्यकता है क्योंकि संपत्ति **"जैसा** है", "जहां है", "जो मी है" और "कोई सहारा आधार नहीं" पर बेबी जाएगी।

दस्तावेज cirpsicl@gmail.com पर परिसमापक को ईमेल भेजकर एकत्र किया जा सकता है । प्रक्रिया दस्तावेज **वेब पोर्टल https://www.eauctions.co.in** पर उपलब्ध होगा : ई—नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड वेबसाइट

https://www.eauctions.co.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

. परिसमापक को ई—नीलामी के किसी भी नियम और शर्तों को खीकार करने या रह करने या बढ़ाने या संशोधित करने का अधिकार है या परिसमापक बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी रद्द कर सकता है। . तकनीकी सहायता के लिए संपर्क व्यक्तिः श्री विजय पिपलिया / श्री इस्तिहाक अहमद 9870099713 इं-मेल: admin@eauctions.co.in

पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम में जारी नहीं किया जाएगा। यह बिक्री दिवाला एवं शोधन अक्षमता सहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन होगी।

पवन कुमार गोयल दिनाक: 29.05.2024 सनशाइन इंफ्राबिल्ड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के परिसमापक स्थानः नई दिल्ली आई बीबीआई पंजीकरण सं:: IBBI/IPA-001/IP-P00875/2017-18/11473 304, डीआर चैम्बर्स, 12 / 56 डी.बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली—11005

पत्राचार के लिए उपयोग किए जाने वाले ई मेल: cirpsici@gmail.com आईबीबीआई के साथ पंजीकृत परिसमापक का ई-मेल: ca.pawangoyal@gmail.com

केनरा वैक 🛆 Canara Bank

जिला- पलवल EN HOUSE. कब्जा नोटिस (धारा 13(4)) (अचल संपत्ति के लिए)

शाखाः हसनपुर रोड, होडल,

जबिक, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54)(इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है) के तहत केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित,धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.09.2019 को एक मांग नोटिस जारी कर उधारकर्ता मेसर्स शिफा ट्रेंडिंग कंपनी प्रो.श्री साहिल पुत्र मो. सिमन को नोटिस में उल्लिखित राशि 31,48,017/-**रुपये (केवल इकतीस लाख अड़तालीस हजार सत्रह रुपये)** साथ ही उस पर ब्याज का भुगतान करने के लिए कहा था।

ऋणकर्ता द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर, ऋणकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियम के नियम 8 व 9 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 23 मई,2023 को नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्दवारा चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने पर 30.09.2019 के अनुसार **रु**.31,48,017 /— (केवल इकतीस लाख अड़तालीस हजार सत्रह रुपये) और उस पर ब्याज की राशि केनरा बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के तहत ऋणकर्ता का ध्यान आकर्षित किया है ।

अचल संपत्ति का विवरण

ग्राम मुबारिकपुर तेह. पुन्हाना की राजस्व संपत्ति (बिक्री संख्या 2505 का स्वामित्व व्यापक उत्परिवर्तन) में स्थित श्री मोहम्मद समीन पुत्र श्री निजार मोहम्मद पुत्र श्री मम्मन की संपत्ति, खेवट / खाता संख्या 201 / 269 रकबा संख्या 49, किल्ला संख्या 3 / 2(2-0), 4/1/1(2-0), 4/1/2 (2-0), | 5(8-0), 4/2(4-0) में 10/360वां हिस्सा शामिल, क्षेत्रफल 18 कनाल 0 मरला (3202 वर्ग गज) है जो कि निम्नानुसार घिरा हुआ है: **उत्तर** से: अन्य संपत्ति, दक्षिण से: रास्ता, पूर्व से: श्री रकीब का घर, पश्चिम द्वारा: अन्य संपत्ति। अधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक दिनांक : 29.05.2024, स्थान : होडल

पंजी. कार्या: यस बैंक हाउस, ऑफ वेस्टर्न एक्स्प्रैस हाईवे, सान्ताक्रूज ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400055 ✔ YES BANK शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 1/9, पटेल नगर (वेस्ट), नई दिल्ली-110018 वेबसाईटः www.yesbank.in

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना प्रतिभित हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सूचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गांरटरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका यस बैंक लि. अर्थात् प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) पेसर सिक्योर सर्विसेस प्रा.लि. (ऋणधारक) (द्वारा उसके निदेशकों), 2) श्रीमती कृष्णा चौबे (गांरटर/मार्टगैजर), 3) श्री विनय कुमार चौबे (गांरटर) से प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये 26.08.2023 को देय रु. 1,55,21,306.90/- (रु. एक करोड पचपन लाख इक्कीस हजार तीन सौ छः पैसे नब्बे मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा चार्जेज की वसूली के लिये 11 जुलाई, 2024 को ''जैसा है जहाँ है'', ''जो भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मूल्य रु. 1,05,61,037/-(रु. एक करोड़ पाँच लाख इकसठ हजार सैंतीस मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 10,56,103.70/- (रु. दस लाख छप्पन हजार एक सौ तीन पैसे सत्तर मात्र) होगी।

ग्रम्पनि का विवरण

फ्री होल्ड डी.डी.ए. निर्मित एम.आई.जी. फ्लैट नं. 114, तीसरा तल, पॉकेट-डी, सेक्टर-17, द्वारका आवासीय योजना, द्वारका, नई दिल्ली। चौहद्दीः पूर्वः खुला/20 फीट रोड, पश्चिमः गली, उत्तरः पैसेज, दक्षिणः

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 11 जुलाई, 2024 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक, प्रति 5 मिनट

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 9 जुलाई, 2024 के 3.00 बजे अप. तक सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 2 जुलाई, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप.

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया http://10.0.49.5/about-us/media/auctionproperty- प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.yesbank.in में दी गई लिंक देखें। निविदा दस्तावेजों/ई-बिडिंग विवरणिका प्राप्त करने अथवा अचल सम्पत्तियों/प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा पूछताछ के लिये कृपया यस बैंक लि. के संबंधित अधिकारियों श्री अमनदीप सिंह से +919711154546 पर अथवा ई-मेलः amandeep.singh28@yesbank.in तथा मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों, वेब पोर्टल पता https://sarfaesi.auctiontiger.net बोलीदाता सपोर्ट नम्बरः +91 9265562821/18 एवं 9978591888, 079-68136880/68136837

राम शर्मा- 9978591888 से सम्पर्क करें। अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के अनसार यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा हमारे द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ कुल बकाये का नीलामी/बिक्री सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो हम प्रतिभूत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं करेंगे तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति के अंतरण अथवा बिक्री के लिये हमारे द्वारा आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी।

ईमेलः support@auctiontiger.net तथा ramprasad@auctiontiger.net, सम्पर्क व्यक्तिः श्री

ऋणधारक /गारंटरों के लिये बिक्री सूचना

उपरोक्त को प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका भगतान करने के लिये प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत सूचना मानी जाये। तिथि: 28.5.2024, स्थान: दिल्ली/एनसीआर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

स्टैण्डएलोन

तिमाही

31.03.2023

(अंकेक्षित)

105.32

0.04

0.04

0.12

0.00

578.95

(रु. लाखों मे

समाप्त

31.03.2023

(अंकेक्षित)

361.69

(32.14)

(32.14)

(32.06)

578.95

115.72

(0.14)

(0.14)

हस्ता.

(रु. लाखों में)

अतुल कुमार मिश्रा

प्रबन्ध निदेशक

31.03.2024

(अंकेक्षित)

61.54

16.78

16.78

16.80

578.95

132.53

0.07

आंकारा एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.

CIN: U67100 TZ 2014 PTC020363, कॉर्पोरेट कार्यालयः कोहिनुर स्क्वॉयर, 47 वॉ तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (वेस्ट), मुम्बई - 400028 ईमेल: mumbai@omkaraarc.com, मो:: +91 9769170774/+91 9082080789

फाइनांसियल एक्प्रेस तथा जनसत्ता (अंग्रेजी तथा हिन्दी) समाचार पत्र के दिल्ली अंक में (ऋणधारक) क ऋण खाता सं. मै. ओवरनाइट एक्सप्रेस लिमिटेड के संदर्भ में ओंकार एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. द्वार ई-नीलामी बिक्री सचना प्रकाशित की गई थी जिसमें सम्पत्ति का विवरण पढेः वेस्मेन्ट पोर्शन डी, म्युनिसिपल नं. 11099, वार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, शीदीपुरा, डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली-

भूतल पोर्शन डी, म्यूनिसिपल नं. 11099, बार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, शीदीपुरा, डोरीवालान करोल बाग, नई दिल्ली-110005, माप 250 वर्ग यार्डस में स्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा तीसरे तल, पोर्शन डी, म्यूनिसिपल नं. 11099, बार्ड नं. XIV, खसरा नं. 158/71, ब्लॉक डी, शीदीपुरा डोरीवालान, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, माप 250 वर्ग यार्डस में स्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

110005, माप 250 वर्ग यार्डस में स्थित वाणिज्यिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।

सूचना के अन्य विषय वस्तु यथावत रहेंगे।

तिथि: 29.05.2024 प्राधिकृत अधिकारी, ओंकारा एसेट्स रीकन्स्ट्रक्शन प्रा.लि स्थानः मुम्बई (ओकारा पीएस 09/2023-24 ट्रस्ट के ट्रस्टी की हैसियत में कार्यरत

साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड Stanfor: L92100DL1994PLCO59093) जीकृत कार्यांत्रक ३७, यूनरी मंजिल, रागी झीती रोड, मोतिया व्हाप, पहाजनक, दिल्ली—11006 事中 chal.delbi@gmail.com कोगः 81-11-23652627, फैक्स गोवर: 81-11-2362461 51 नार्थ, 2024 को समाना तिमाती के लिए लेखावरीकित वितीय परिमार्ग का विवरन

	वरण चे जोट ऐसी	चलु वर्ष समाच होने वाजी तिमाही/चालु वर्ष समाय होने वाला (31/03/2024) (लेक्सपरेखित)	वर्ष वर दिन्तंक अंकड़ा/पासू वर्ष शकास (31/03/2524) (लेखानरीक्रिय)	निक्रती जिनकी सम्बन्ध (31 / 12 / 2023) (अलेखपरीवित)	संगत विश्वही समया (३१ / ०७ / ३०२३) (संख्यपरीक्षित)
T.	संवातन से कुल अव	316.31	1,555.67	204.49	1,358.32
2	अवधि से जिए सुद्ध जाम/(शर्मि) (कर. असाधारण और/या असाधारण वस्तुत्री में पहरों)	82,04	55,31	(179.21)	537.08
1	वन से महते वी अवधि वे तिए मुद्र लाष/(अपि) (आमश्रदण वीर/पा असाम्बदण जातुओं के बाद)	93.82	A7.92	(176.21)	537.03
4	यन में पहले जी अयधि के लिए सूच लान/(इनी) (असावतत्त्र और/ पा असंस्थान इस्तुओं के बाद)	101.45	33.61	(179.01)	30 53
3	कर वे बाद वी अवधि के लिए मुद्ध तान / (डानि) (असध्यरण और/मा असध्यरण सन्दुर्जी के बाद)				
		152.75	84,90	(90.72)	-30.53
ď.	इन्सिटी संबर पूर्ण	1,002,65	1,000.65	T0/022 65	1,002.66
Y.	रिजर्व (पुनर्मूजांबन रिजर्व को छोड़कर) जेला कि निकास पर्ने की अधिदेव केला कीट में दिखायां नया है।	1			
a	मित संघर जब (म्हणेक रू. 10,/-) (पारी और बंद परिवालन के लिए) 1 मूल 2. लगा	0.15	0.08	(ii) 18 c	(1.33)

उपरोक्त परिणानों की समीक्षा ऑदिट समिति द्वारा की गई है और बोर्ड ओ निदेशको द्वारा 27 मई 2024 को आयोजित अपनी बैठकों में अनुमोदित किया गया है और कंपनी के कैप्रानिक लेखा परीक्षकों ने तिमाही और वर्ष के लिए उपरोक्त विलीय परिणानों की 'सीमित समीक्षा रिपोर्ट आयोजित की है। संबी (लिस्टिन और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम 2016 के विनियम 33 के अनुसार 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया।

पास आईएनडी एएस 106" ऑपरेटिंग सेममेंट के अनुस 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2023 को समाज तिमाही के आंकड़े पूरे विशीय वर्ष के संबंध में लेखायरीबित आंकड़ों और संबंधित वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित अलेखापरीक्षित वर्ष से जाज तक के आंकड़ों के बीच

निरम्ती अवधि और वर्ष के आंकड़ों को जड़ां मी आवश्यक हुआ, पुन शमूडीकृत/पुन वर्गीकृत किया गया है। साधना बॉबकास्ट लिमिटेड के लिए बाल मुर्बुद विवारी प्रबंध निवेशक

बीआईएनः ०२५६६६३

दियांक: 27.06.2024 स्थान : नई दिल्ली

पंजी. कार्याः यस बैंक हाउस. ऑफ वेस्टर्न एक्स्प्रैस हाईवे. सान्ताक्रूज ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र-400055 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं. 1/9, पटेल नगर (वेस्ट), नई दिल्ली-110018 ✓ YES BANK वेबसाईटः www.yesbank.in

प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी बिक्री सुचना

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सुचना

एतदद्वारा सर्व-साधारण तथा विशेष रूप से ऋणधारकों तथा गांरटरों को सचित किया जाता है कि प्रतिभत क्रेडीटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका यस बैंक लि., अर्थात् प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की 1) मै. दि कॉचुरिअर्स (ऋणधारक) (द्वारा उसके पार्टनर्स), 2) सुश्री विनीता जौहरी (गारंटर), 3) श्री राणा अनुराग सिंह (गारंटर), 4) कैप्टन शिखर जौहरी (गारंटर), 5) सुश्री मंजूला चौहरी (गारंटर/मार्टगैजर) से प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 11.10.2023 को देय रु. 2,66,19,078.27/- (रु. दो करोड़ छियासठ लाख उन्नीस हजार अठहत्तर पैसे सत्ताईस मात्र) के साथ अनुबंधित दर पर आगे के ब्याज तथा चार्जेज की वसूली के लिये 05 जुलाई, 2024 को "जैसा है जहाँ है'', ''जो भी वहाँ है'' आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित मृल्य रु. 2,11,39,248/- (रु. दो करोड़ ग्यारह लाख उन्तालिस हजार दो सौ अड़तालिस मात्र) तथा धरोहर राशि भुगतान रु. 21,13,924.80/- (रु. इक्कीस लाख तेरह हजार नौ सौ चौबीस पैसे अस्सी मात्र) होगी।

सम्पत्ति का विवरण

लॉरेन्स रोड. दिल्ली में हाउसिंग इस्टेट की ले आउट योजना में स्थित ब्लॉक नं. बी-3. कैटगरी एमआईजी में फ्लैट नं. 59–सी। चौहद्दीः उत्तरः रोड, दक्षिणः सीढी/फ्लैट नं. 60–सी, पुर्वः पैसेज, पश्चिमः

ई-नीलामी की तिथि एवं समय: 05 जुलाई, 2024 को 11 बजे पूर्वा. से 2 बजे अप. तक, प्रति 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ

बोली जमा करने की अंतिम तिथि: 03 जुलाई, 2024 के 3.00 बजे अप. तक

सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय: 25 जून, 2024 को 11.00 बजे पूर्वा. से 2.00 बजे अप. बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया http://10.0.49.5/about-us/media/auction-

property- प्रतिभृत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् www.yesbank.in में दी गई लिंक देखें। निविदा दस्तावेजों/ई-बिडिंग विवरणिका प्राप्त करने अथवा अचल सम्पत्तियों/प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कठिनाई अथवा पूछताछ के लिये कृपया यस बैंक लि. के संबंधित अधिकारियों श्री अमनदीप सिंह से +919711154546 पर अथवा ई-मेलः amandeep.singh28@yesbank.in तथा मै. ई-प्रॉक्योर्मेन्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) अहमदाबाद के अधिकारियों, वेब पोर्टल पता https://sarfaesi.auctiontiger.net, बोलीदाता सपोर्ट नम्बरः +91 9265562821/18 एवं 9978591888, 079-68136880/68136837, ईमेलः support@auctiontiger.net तथा ramprasad@auctiontiger.net, सम्पर्क व्यक्तिः श्री राम शर्मा- 9978591888 से सम्पर्क करें।

अधिनियम की धारा 13(8) के प्रावधानों के अनुसार यदि सभी लागतों, चार्जेज तथा हमारे द्वारा वहन की गई खर्चे के साथ कुल बकाये का नीलामी/बिक्री सचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान कर दिया जाता है तो हम प्रतिभृत परिसम्पत्ति की बिक्री अथवा अंतरण नहीं करेंगे तथा प्रतिभृत परिसम्पत्ति के अंतरण अथवा बिक्री के लिये हमारे द्वारा आगे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ऋणधारक /गारंटरों के लिये बिक्री सचना

उपरोक्त को प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर उसका भुगतान करने के लिये प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) के साथ पठित नियम 9(1) के अंतर्गत सचना मानी जाये। तिथि: 28.5.2024, स्थान: दिल्ली/एनसीआर हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी

मोदी नेचुरल्स लिमिटेड

रिज. कार्यालयः ४०५, दीपाली बिल्डिंग, ९२, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोनः 011–41889999, ईमेलः investors@modinaturals.org वेबसाइटः www.modinaturals.com, (सीआईएनः L15142DL1974PLC007349)

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, कंपनी (प्रबंधन और

डाक मतपत्र एवं रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 22 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय और सेबी द्वारा जारी लागू परिपत्रों के साथ पठित (सामूहिक रूप से इसे कहा जाता है) ,लागू परिपत्र,), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44, और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ('एसएस–2') और अन्य लागू कानून और विनियम, डाक मतपत्र में निर्धारित प्रस्तावों के लिए केवल रिमोट 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' (ई-वोटिंग) के माध्यम से डाक मतपत्र के माध्यम से मोदी नेचुरल्स लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की सहमित मांगने वाले डाक मतपत्र की सूचना 31 मार्च 2024 का नोटिस 27 मई 2024 को ईमेल द्वारा उन सदस्यों को भेजा गया है जिनके नाम 17 मई 2024 को व्यावसायिक घंटों की समाप्ति पर सदस्यों के रजिस्टर / लाभकारी स्वामियों की सूची में दिखाई देते हैं ('कट-ऑफ तिथि') डिपॉजिटरीज से प्राप्त किया गया है और जिसका ई-मेल पता कंपनी / आरटीए / डीपी / डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत है। लागू परिपत्रों के तहत पोस्टल बैलेट नोटिस और पोस्टल बैलेट फॉर्म की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। व्यवसाय केवल ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से डाक मतपत्र द्वारा किया जाना है और सदस्यों की सहमति या असहमति का संचार केवल ई-वोटिंग के माध्यम से होगा।

कंपनी अपने सदस्यों को सेंटल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ('सीडीएसएल') के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ("रिमोट ई-वोटिंग") द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों पर वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई-वोटिंग की अविध बुधवार, 29 मई 2024 को सुबह 10:00 बजे शुरू होती है और शाम 5:00 बजे समाप्त होती है। आईएसटी गुरुवार, 27 जून 2024 को उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा और उक्त तिथि के बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कंपनी के सदस्य, जिनके पास कट ऑफ डेट यानी शुक्रवार, 17 मई 2024 को भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। सदस्य / लाभार्थी स्वामी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरधारिता के मामले में) का वोटिंग अधिकार उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चूकता इक्विटी शेयर पूंजी में उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में होगा।

कट-ऑफ तिथि तक जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस का ईमेल नहीं मिला है, वे 'पोस्टल बैलेट नोटिस' विषय पंक्ति के साथ investors@modinaturals.org पर एक ईमेल लिख सकते हैं और उसे प्राप्त जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपना ई-मेल पता पंजीकत/अद्यतन

नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे फॉर्म आईएसआर—1 (कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध) जमा करके अपना ई-मेल पता पंजीकृत/अपडेट करें। modiNaturals-com) आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत भरकर और हस्ताक्षरित होकर कंपनी के आरटीए, मैसर्स को भेजें। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 153ए, पहली मंजिल, ओखला फेज —1, नई दिल्ली—110020, वेबसाइटः 'www.skylinerta.com' और सदस्य, जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक रूप/मोड में शेयर हैं और उन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इसे डीपी के साथ पंजीकृत करें जहां वे अपने डीमैट खाते रखते हैं जो ई-वोटिंग के दौरान अनिवार्य है; यह पोस्टल बैलेट नोटिस कंपनी की वेबसाइट 'www.modinaturals.com, स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई

लिमिटेड की वेबसाइट 'www.bseindia.com' और CDSL की वेबसाइट 'www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है। ई-वोटिंग से संबंधित विस्तृत निर्देशों के लिए, सदस्य कृपया पोस्टल बैलेट नोटिस में 'नोट्स'अनुभाग देखें।

यदि आपके पास ई—वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप helpdesk.evoting@cdslindia.com पर एक ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800225533 पर

> मोदी नेचरल्स लिमिटेड के लिए अक्षय मोदी संयुक्त प्रबंध निदेशक डीआईएनः 03341142

केनरा बैंक 🛆 Canara Bank THE STATES

शाखाः हस्सनपुर रोड, होडल,

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) (यहां के बाद "अधिनियम" वर्णित) के अंतर्गत केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 22.2.2023 जारी कर ऋणधारक श्री राजवीर पुत्र परमा को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रू. 1,96,114/- (एक लाख छियानवे हजार एक सौ चौदह मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज 23 मई. 2024 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 22.2.2023 को देय रू. 1,96,114/- (एक लाख छियानवे हजार एक सौ चौदह मात्र) तथा उस पर ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। तथा उस नर ब्याज के लिये केनरा बैंक के चार्ज के अधीन होगा।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतहारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

राजवीर, पुत्र श्री परमा के नाम में खेवत/खतोनी 425/496 (नया खेवत/खतोनी 468/536), रेक्ट नं-168, किल्ला ने. 24/2 (2-0), कुल माप 02 कनाल 00 मरला जिसमें आवेदक का शेयर 1/10 अर्थात-0 कनाल 04 मरला (116 वर्ग यार्डस) जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है: उत्तर: कमलेश, पत्नी श्याम किरण का प्लॉट, दक्षिण: चेत राम का प्लॉट, **पूर्व**: रास्ता, **पश्चिम**: रास्ता

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक तिथि: 29.05.2024, स्थान: होडल

क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वित्तीय परिसंपत्तियां के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्भाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम २००२ की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

ाधोहस्ताक्षरकर्ता ने **क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** (क्लिक्स), एक नॉन बैंकिंग फाइनेंसियल कंपनी (भारतीय रिज बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत), जिसका पंजीकृत कार्यालय अग्रवाल कॉर्पोरेट टॉवर, भूखंड सं. 23, 5वां तल, गोविंद ल सिक्का मार्ग, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली–110008 में स्थित है (यहां इसमें इसके उपरांत 'क्लिक्स'' के रूप में संदर्भित), प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) (यहां इसमें इसके उपरान्त ''सरफॉएसि अधिनियम 2002'' के रूप में संदर्भित) के प्रावधान के अंतर्गत जो अखिल भारत मतें अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पुर्ति करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करने के व्यवसा में कार्यव्यस्त है, एतद्द्वारा आपको निम्नलिखित सूचना निर्गत करती है :--

1. मनीष कुमार पुत्र मदन लाल चोपड़ा टावर — 1,1202ए, पंचशील वेलिंग्टन क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद उत्तर प्रदेश–201016। **यहां भी**: ग्लोबल ट्रेडिंग कंपनी द्वितीय तल कार्यालय संख्या–201, प्लॉट संख्या–22, पूजा कॉम्प्लेक्स, वीर सावरकर ब्लॉक, शकरपुर, पूर्वी दिल्ली110092। यहां भी:– प्रॉपर्टी नंबर 6, पहली मंजिल, गगन विहार एक्सटेंशन गांव खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली – 110051. 2. गुरप्रीत कौर पत्नी मनीष कुमार, टावर—1,1202ए, पंचशील वेलिंगटन क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश— 201016. **यह भी देखें**— 401-बी, टावर-2 पंचशील वेलिंगटन क्रॉसिंग रिपब्लिक गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201016। **यहां भीः** प्रॉपर्टी नंबर 6, पहली मंजिल, गगन विहार एक्सटेंशन गांव खुरेजी खास, शाहदरा, दिल्ली–110051

ऋण खाता संख्या/तिथिः AC2020110570082 / 19.11.2020, प्राप्त ऋण राशि : रु. 1,03,00,000/-13(2) सूचना की तिथि : 17.04.2024, एनपीए तिथि— 10.04.2024

अधिनियम की धारा 13(2) के अनुसार मांग तिथि एवं राशि की सूचना : रु. 1,09,31,932.65 / - (रुपये एक करोड़ नौ लाख इकतीस हजार नौ सौ बत्तीस तथा पैंसठ मात्र) बंधक संपत्तियाँ : संपूर्ण निर्मित पहली मंजिल के वे सभी टुकड़े और पार्सल, छत के स्तर तक, छत के

अधिकार के बिना, भूमि क्षेत्र का माप 200 वर्ग गज है। एल.ई. 167.22 वर्ग मीटर, इसका प्लिथ / आच्छादित क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है, साथ ही इसकी पूरी संरचना वहां की साइट के अनुसार है, जिसमें चार शयनकक्ष, एक डाइंग–सह–भोजन कक्ष, एक रसोईघर, शौचालय / बाथरूम शामिल हैं। , अलग–अलग मीटरों के साथ बिजली और पानी के नल कनेक्शन से सुसज्जित, सामान्य प्रवेश द्वार, पैसेज, सीढ़ियां, लिफ्ट और स्टिल्ट फ्लोर पर एक कार और एक स्कूटर/बाइक पार्किंग की जगह, सभी सामान्य सुविधाओं/सुविधाओं के साथ भवन में, गांव के क्षेत्र में, गगन विहार एक्सटेंशन के लेआउट प्लान में स्थित, संपत्ति संख्या 6 का एक हिस्सा, शीर्ष मंजिल की छत पर पानी की टंकी और टीवी एंटीना स्थापित करने / बनाए रखने का धिकार प्रदान किया गया है। खुरेजी खास, इलाक़ा शाहदरा, दिल्ली—110051, नीचे की भूमि में आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और निष्पक्ष स्वामित्व अधिकारों के साथ। **संपत्ति की सीमा इस प्रकार है: पूर्वः** संपत्ति संख्या ७, **पश्चिमः** संपत्ति संख्या ५, **उत्तरः** गली १५ फुट चौड़ी, **दक्षिणः** सड़क २५ फुट चौड़ी।

इसके अलावा, कारणों के साथ, हमारा मानना है कि आप मांग नोटिस की सेवा से बच रहे हैं, इसलिए मांग नोटिस काशन किया जा रहा है। आपसे इस डिमांड नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि में **क्लिक्स हाउर्सि फाइनेंस लिमिटेड** को अतिरिक्त ब्याज, लागत, आकस्मिक व्यय, शुल्क आदि के साथ उपरोक्त राशि का भुगतान करने व लेए कहा जाता है, ऐसा न करने पर **क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सभी या किर्स क या अधिक प्रावधान के तहत आवश्यक कार्रवाई करेगी, जिसमें सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध उधारकर्ता / ओं की इस नुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करना भी शामिल है। इसके अलावा आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री / पर माध्यम से या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त स्रिक्षित संपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है जपया ध्यान दें कि आगे कोई डिमांड नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। प्राधिकृत अधिकारी, क्लिक्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 29-05-2024, स्थान : गाजियाबाद

रीटा फाइनेंस एंड लीजिंग लिमिटेड

सीआईएन : L67120DL1981PLC011741 रजि. कार्यालक डी-328, बेसमेंट तल , डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024

ईमेल: ritaholdingsltd@gmail.com , वेबसाइट : www. ritaholdings.in फोन: 011-46772202

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए स्टैंडअलोन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

पिछले वर्ष समाप्त समाप्त वर्ष वर हुए संयत विवरणी आंकडे 3 महीने 31/03/2024 31/03/2024 31/03/2023 (लेखापरीकित (लेखापरीकित) परिवालन से कल आय 2.30 120.98 15.41 अवधि हो लिए शुद्ध लान्म(हानि) (कर से पहले, विशेष और / या (17.47) 59.02 11.46 कर से पहले की अपधि के लिए शुद्ध लाम/(हानि) (विशेष और /या असाधारण मदै के कार्य) 59.02 11.46 (17.47) कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम/(धानि) (विशेष और भ्या असाधारण सदें के बाद) 39.85 8.58 (17.47) अवधि के लिए कुल व्यापक साथ ि अवधि (कर के बाद) के लिए संपूर्ण लाभ / (हानि) और अन्य जायक आय (कर के बाद)] (17,47) 39.85 8.58 1000.00 1000.00 1000.00 आरक्षितों (पिछले वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार पुनर्मुख्यांकन आरक्षितों को छोडकर) प्रति शेपर आय (रु. 10/- प्रत्येक का) (चालु और बंद परिवालन के लिए।

। जपरोक्त विवरण सेबी (सुधीबद्धता दाखित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत लॉक एक्सनेंजों के साथ दायर किए गए लेखापरीक्षेत जैमासिक वितीय परिमामों के विस्तृत मारूप का एक उद्धरम । लेखापरीकित क्रैस्तरिक विशीय का पूर्व प्रारूप परिणाम क्रंपनी की वेबसाइट यानी (www.ritafinance.in) और लॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट पर तपलब्द हैं। 2. उपरोक्त परिचाम की समीबा लेखा. समिति द्वारा की गई है और 27 मई 2024को हुई अपनी बैठक में बोर्ब द्वारा

(2.): बाइल्टब

0.08

0.08

0.40

00.171

ल्लादित किया यथा है। वितीय परिणाम भारतीय लेखा मानको (इंड-एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं जैसा कि कंपनी अधिनिधम, 2013

की भारा 133 के साथ परित इंड-एएस नियमों (संशोधित) के तहत नियोरित किया गया है। रीटा पहार्जेक एंड लीजिंग लिजिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

पवन कुमार मित्तल (निरेशक) Buries: 27.05.2024 स्यानः नई दिल्ही डीआईएज: 00749265

वेब टेक पैकेजिंग्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) परिसमापकः सुश्री आश् गृप्ता

परिसमापक कार्यालयः 204ए, दूसरी मंजिल, एस.बी.आई. बिल्डिंग, 23, नजफगढ़ रोड औद्योगिक क्षेत्र, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 इमेल: webtech.ibc@gmail.com, मो. +91 9899021740

*बिक्री / नीलामी सूचना

ई-नीलामी

दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 के तहत संपत्तियों की बिक्री नीलामी की तिथि और समय: 01 जलाई 2024 (दोपहर 02.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक) पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 11 जून, 2024 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 29 जून, 2024 ई-नीलामी वेबसाइटः https://www.eauctions.co.in/

इसके द्वारा आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि मैंसर्स वेब टेक पैकेंजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के परिसमापक ने (1) प्लांट एवं मशीनरी और फर्नीचर और फिक्स्चर जोकि एफ-21, साइट-सी. सूरजपुर औद्यो. क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश और (2) **औद्योगिक प्लॉ**न्ट (क्षेत्रफल 1023.57 वर्ग मी.) जोकि औद्योगिक प्लॉट नं. १०३ ब्लॉक सी, फेज ।।।, एल्बिको सिडकुल औद्योगिक पार्क, ईएसआईपी, सितारगंज, उचम सिंह नगर, उत्तराखंड में स्थित को ई-मीलामी के मध्यम से बेचने का प्रस्ताव

रखा है। इस संबंध में उपरोक्त बिक्री के संबंध में बोलियां जमा करने के लिए रुचि की अभिव्यक्ति ("ईऑअरई") आमंत्रित की जाती है।

लोक	आरितयां	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि	बाला कुद्ध राशि
क	प्लांट एवं मशीनरी और फर्नीचर एवं फिक्स्चर जोकि एफ-21, साइट-सी, सूरजपुर औद्यो, क्षेत्र, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में स्थित की बिक्री	32,47,083	3,24,708	50,000
ख	एल्डिको सिङ्कुल औद्योगिक प्लॉट नं. 103, ब्लॉक सी, फेज ।।। ईएसआईपी, सितारगज, उधम सिंह नगर, जिला उत्तराखंड (क्षेत्रफल 1023.57 वर्ग मी.) की बिक्री	15,61,458	1,56,146	50,000

 ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मेससं लिंकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से ''जैसा है जहां है", "जैसा है जो है" और "जो कुछ है के आधार पर" पर आयोजित किया जाएगा।

2. इच्छक बोलीवाताओं से अनुरोध है कि वे बिस्तृत बिक्री सुचना, ई-नीलामी के नियम और शर्ती, बिक्री के लिएं संपत्तियों के विवरंग के लिए लिकस्टार इंफोसिस प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट https://www.eauctions.co.in पर जाएं।और ई-नीलानी में भाग लेने के लिए अपनी बीलियां

जमा करने से पहले अन्य प्रासंगिक विवरण . इच्छक बोलीदाताओं को, अपनी बोली जमा करने से पहले, संपत्ति के शीर्षक, पट्टा किराया, रखरखाद शुल्क, यदि कोई हो, स्थानीय करों की बकाया राशि आदि के बारे में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए और बिकी पर पड़ा हस्तांतरण शुल्क, यदि कोई हो, वहन करना होगा। औद्योगिक प्लाट एवं सम्पत्ति का

स्वयं के व्यय पर निरीक्षण कर स्वये संतुष्ट हो लें। . इच्छुक बोलीदाताओं को 29 जून, 2024 को या उससे पहले एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ''परिसमापन खाता येव टेक पैकेंजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड''. पंजाब नेशनल बैंक सी ब्लॉक, डीडीए मार्केट, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली-110065 के खाते में क्याना राशि जमा (ईएमडी) राशि जमा करनी

होगी। खाता संख्याः 52031132000155, आईएफएससी फोडः PUNB0309600 परिसमापक को इं-नीलामी के किसी भी नियम और शर्तों को स्वीकार करने या रह करने या विस्तारित करने या संशोधित करने आदि का अधिकार है (या) परिसमापक किसी भी समय ई-नीलामी की किसी भी

यस्तु को रद्द कर सकता है (या) करा सकता है। उसे बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली को अस्वीकार करने का अधिकार है। बिक्री दिवाला और दिवालियापन सहिता, 2016 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन

आशू तुर परिसमापक वेब टेक पैकेशिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के मामले इरण वर PDD1/PDA 000000 आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-002/IP-N00339/2017-2018/10943 भित: webtech.lbc@gmail.com

Evelor: 28.05.2024 स्थानः नई दिल्ली िट: 29-06-2024 को इस समाधार पत्र में प्रकाशित किसी/नीतामी सूचना पर आग जनता का ध्यान कोशित है कि एसमें कुछ मुद्रण संबंधे वर्ष हैं, कृपना 28.06.2024 को प्रकाशित किसी/नीतामी सूचना को अनदेशा करें और चपरोक्त किसी/नीतामी सूचना को अधिन माने।

www.readwhere.com

रजनीश गांधी

कब्जा सूचना [धारा 13 (4)] (अचल सम्पत्ति के लिये)

निर्देश दिया था। प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

ई—नीलामी बिक्री नोटिस परिसमापन प्रक्रिया में सनशाइन इफ्राबिल्ड कॉपोरेशन लिमिटेड (परिसमापन में)

नोटिस दिया जाता है। नीलामी की तिथि और समय

बोली जमा करने की अंतिम तिथि : 13.06.2024 योग्य बोलीदाता की घोषणा 19.06.2024 परिसंपत्तियों के निरीक्षण की अंतिम तिथि: 26.06.2024, ईएमडी जमा करने की आखरी तारीख : 01.07.2024

3. ई—नीलामी बिक्री के विरत्तत नियमों और शर्ती के लिए, प्रक्रिया सूचना दरतावेज देखें । प्रक्रिया सूचना

. संपूर्ण बिक्री प्रतिफल के भूगतान के बाद; बिक्री प्रमाण पत्र / समझौता केवल सफल बोलीदाता के नाम

मोबाइल: 9313502143

फॉर्म नं. आईएनसी - 26 [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30

राज्य में बदलने के लिए समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित किया जाना है। क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, दिल्ली के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में

के अनुसार

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे

एमआईएस बॉन—कुजीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में इसका पंजीकृत कार्यालय कमरा नंबर 203, 2-ए/3, कुंदन मेंशन आसफ ऑल रोड, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002 है।

आम जनता को नोटिस दिया जाता है कि कंपनी कंपनी

अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्रीय सरकार

को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें एक्स्ट्रा

..... याचिकाकर्ता

में पारित विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बदलाव की पुष्टि की मांग की जाती है। कंपनी को अपने पंजीकृत कार्यालय को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'कर्नाटक राज्य' मे बदलने में सक्षम बनाने के लिए 05 अप्रैल, 2024 के साधारण आम बैठक आयोजित की गई। कोई भी व्यक्ति, जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है वह **एमसीए—21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर निवेशक

अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, दूसरी मंजिल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 को अपनी रुचि की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हए एक हलफनामे के साथ पंजीकृत डाक से भेजें। इस नोटिस के प्रकाशन के चौदह दिनों के भीतर आवेदक

शिकायत दर्ज करके या डिलीवरी करा सकता है या

कंपनी की एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर अपने पंजीकृत कार्यालय में जमा करें: कमरा नंबर 203, 2-ए13, कुंदन मेंशन आसफ ऑल रोड, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110002

बॉन-कुजीन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए विकाश चन्द्र

(निदेशक)

डीआईएनः 08267127

दिनांकः 28.05.2024

(a) बेसिक

स्थान : दिल्ली

(b) डाइल्यूटेड

स्थान : दिल्ली

तरल (रु.)

मूल (रु.)

परिचालनों से कुल आय

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी

0.03 0.05 0.00 0.07 टिप्पणी : 1. उक्त अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा 28 मई. 2024 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों ने इन स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों पर अ-संशोधित ऑडिट

पंजी. कार्यालय : 574, 2रा तल, मैन रोड, चिराग दिल्ली, नई दिल्ली-110017

CIN: L31104DL1989PLC362504, वेबसाईट : www.jmg-corp.in,

टेली : 91-11-41834411/41834111, फैक्स: 011-41834112, ई-मेल:info@jmg-corp.in

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिए अंकेक्षित स्टैण्डएलॉन वित्तीय परिणामों का सार

समाप्त

तिमाही

31.03.2024

(अंकेक्षित)

17.46

7.26

7.26

7.29

578.95

0.03

समाप्त

तिमाही

31.12.2023

अनंकेक्षित)

20.37

11.73

11.73

11.73

578.95

0.05

अभिमत प्रकट किये हैं। उपरोक्त विवरण सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की 31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष एवं तिमाही के स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप का सार है। अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट www.jmg-corp.in पर

उपलब्ध है। निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से जेएमजी कॉर्पोरेशन लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली

(0.16)

(0.16)

(2.28)

(2.28)

तिथि : 28 मई. 2024

विवरण

अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि (कर से बाद) तथा अन्य

व्यापक आय (कर से बाद) के लिये लाभ/(हानि) शामिल)

कर पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) असाधारण

कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि)

तुलन पत्र तिथि 31.3.2024 को अन्य इक्विटी

आय प्रति शेयर (तिमाही वार्षिकीकृत नहीं)

CIN: L51909DL1983PLC15585 10/60, इंडस्ट्रियल एरिया, कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015 फोनः 011-41426055, ईमेलः vkgandhi@abmintl.in, वेबसाईटः www.abmintl.in 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के स्टैंडएलॉन तथा समेकित अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

स्टैण्डएलोन समेकित समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष समाप्त तिमाही समाप्त वर्ष विवग्ण 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 31.03.2024 31.12.2023 31.03.2023 31.03.2024 31.03.2023 लेखापरीक्षित) (अलेखापरीक्षित) लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) लेखापरीक्षित) अलेखापरीक्षित) लेखापरीक्षित) (लेखापरीक्षित) लेखापरीक्षित) प्रचालनों से कुल आय (निवल) 1572.16 8642.67 1572.16 2115.54 9411.88 8642.67 2115.54 2368.63 9411.88 2368.63 अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (138.75)(214.77)119.86 (459.32)(877.24)(138.75)(214.77)119.96 (459.32)(877.24)(कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (878.58)(138.75)(214.77)119.86 (459.32)(877.24)(137.36)119.07 (457.47)(215.06)(अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) कर पश्चात अवधि हेत निवल लाभ/(हानि) (22.38)(214.77)342.70 (342.95)(668.56)(21.44)(215.06)341.9 (341.55)(669.90)(अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) (15.32)(214.77)322.20 (335.89)(630.45)(19.43)(215.06)321.47 (339.54)(631.79)अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि (कर पश्चात) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) हेत लाभ/ (हानि) से निर्मित 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 940.80 इक्विटी शेयर पूंजी

नोटः 1 उपरोक्त वित्तीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 27.05.2024 को आयोजित बैठक में रिकॉर्ड पर लिया गया है और कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक ने उस पर अपनी लेखा परीक्षक रिपोर्ट जारी की है। उपरोक्त सेबी (सुचीयन दायित्व तथा उदघाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ दायर त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। त्रैमासिक

(3.57)

(3.57)

(6.70)

(6.70)

(0.21)

(0.21)

(2.29)

(2.29)

3.42

3.42

(3.61)

(3.61)

3.42

3.42

और वार्षिक वित्तीय परिणाम का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज नामतः द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट- https://www1.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट-http://www.abmintl.in पर उपलब्ध हैं। निरंशक मंदल के लिये तथा उसकी ओर से एबीएम इन्टरनेशनल लिमिटेड

चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक तिथि : 28.05.2024

27 मई 2024 DIN: 00244906

दिल्ली

(6.72)

(6.72)